

**हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर** के दिशानिर्देश में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय व क्षेत्राधिकारी बांसगाव के कुशल मार्ग निर्देशन में एंव थानाध्यक्ष राजप्रकाश सिंह के नेतृत्व में व0उ0नि0 प्रवेश कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 अख्तर आलम व का0 अनीश अहमद के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम , तलाश वांछित अभियुक्त व मुकदमा उपरोक्त के मृतका अनीता के शव की बरामदगी व खोज बीन में राप्ती नदी ग्राम कोठा बेलकुर के मध्य गोताखोरो के माध्यम से खोजवाया जा रहा था कि मुखबीर खास आकर मिला और बताया कि साहब मुकदमा उपरोक्त के नामजद अभियुक्त जयवीर पुत्र चन्देलाल निवासी डूमरी थाना गगहा गोरखपुर जो हत्या किया है वह जिस साइकिल से अनीता की लाश को ठिकाना लगाया है। व साइकिल छिपा कर समया स्थान माता मन्दिर वहद ग्राम राजपुर के पीछे छिपाया है। वह उक्त साइकिल को लेने जा रहा है और कही भागने के फिराक में भी है, मुखबीर की बात पर विश्वास करके मै व0उ0नि0 हमराही कर्म0गणो को मुखबीर की बात से अवगत कराते हुये मय मुखबीर के प्रस्थान कर समया स्थान माता मन्दिर के पास आया हूँ एक व्यक्ति मन्दिर के पीछे आड़ में एक साइकिल लिया है, मुखबीर ने उस व्यक्ति के तरफ इशारा करके बताया कि साहब वही राजवीर है जो डूमरी गांव के हत्या के मुकदमें अभियुक्त है और मुखबीर वापस चला गया कि हम पुलिस वाले उस व्यक्ति की तरफ आगे बढ़े की हम पुलिस वालों को अचानक देख साइकिल फेक कर भागने का प्रयास किया कि हम पुलिस वाले घेरघार कर मौके पर पकड़ लिया पकड़े गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम जयवीर पुत्र चन्देलाल निवासी ग्राम डूमरी थाना गगहा जनपद गोरखपुर बताया साइकिल के बारे में पूछने पर बताया कि साहब चन्नर की लड़की अनीता को गला दबाकर हत्या करने के बाद इसी साइकिल से मै ठिकाना लगाया हूँ, साइकिल को कब्जा पुलिस लिया गया यह इतमिनान हो जाने पर की अभियुक्त जयवीर उपरोक्त उक्त मुकदमें का वांछित अभियुक्त है को जुर्म धारा से अवगत कराते हुये कि आप मु0अ0स0 739//2020 धारा 302/201 आई0पी0सी0 थाना गगहा गोरखपुर में नामजद अभियुक्त है। समय करीब 10.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसे जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –**

जयवीर पुत्र चन्देलाल निवासी डूमरी थाना गगहा गोरखपुर

**अभियोग जिसमे गिरफ्तार किया गया-**

मु0अ0स0 739//2020 धारा 302/201 आई0पी0सी0 थाना गगहा गोरखपुर

**बरामदगी**

घटना में प्रयुक्त एक अदद हिरो साइकिल लाल रंग अभियुक्त जयवीर उपरोक्त के पास से बरामद

**गिरफ्तारी का स्थान व समय**

समया स्थान माता मन्दिर वहद ग्राम राजपुर दिनांक 14/11/2020 समय 10.20 बजे

**गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्म0गण –**

- (1) व0उ0नि0 श्री प्रवेश कुमार सिंह थाना गगहा गोरखपुर
- (2) उ0नि0 अख्तर आलम थाना गगहा गोरखपुर
- (3) का0 अनीश अहमद थाना गगहा जनपद गोरखपुर